BELLA CASA FASHION & RETAIL LTD

(Formerly Known as Gupta Fabtex Pvt. Ltd.)
Importers, Manufacturer & Exporters of:
Home Furnishing, Garment & Fabrics

Ph.: 0141-2771844 E-mail: info@bellacasa.in Website: www.bellacasa.in

CIN: L17124RJ1996PLC011522

Date: September 9, 2020

E-102, 103, EPIP, Sitapura Industrial Area, Jaipur - 302022, INDIA

Ref-BSE/2020-21/21

To,

Corporate Relationship Department,

BSE Limited

Phioze Jeejeebhoy Tower,

Dalal Street,

Mumbai – 400 001

Subject-Intimation under Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015

Scrip Code- 539399

Dear Sir/Ma'am,

In terms of Regulation 47 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed copy of newspaper advertisement published in Dainik Navjyoti (Hindi Newspaper) and Financial Express (English Newspaper) on September 08, 2020 for extract of unaudited financial results for the quarter ended on June 20, 2020.

Kindly take this information on record.

Yours faithfully

For Bella Casa Fashion & Retail Limited

Company Secretary

Membership No.: A38676

एक्सपायरी डेट के माल को नष्ट करते हुए।

निविदा सूचना सं.: झाँसी/उप.म्.सा.प्र./2020-21/10

निविदा संख्याः 51205509 दिनांक 02.09.2020

M&P Terms and conditions.

📵 उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज

निविदा सूचना

भारत के राष्ट्रपति के लिये तथा उनकी ओर से उप मुख्य सामग्री प्रबंधक (जी.एस.डी.)

सामान्य भंडार डिपो, उत्तर मध्य रेलवे, झाँसी द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिये प्रतिष्ठित ए

Supply, erection, testing and commissioning of Pit Type Dyno drive 02 नग

(VVVF Type) with regenerative features for testing of 4.5KW/25KW alternators. As per RDSO Specification No. RDSO/PE/SPEC./AC/0081-

2007 (Rev.0) or latest. Note: Warranty 24 months as per Latest IRS 8

बयाना राशिः ₹ 46210/- (रू. छियालीस हजार दो सौ दस केवल)। मद परिदान अवधिः 90

दिन। निविदा बंद होने का दिनांक व समयः 06.10.2020 को 14.30 बजे। निविदा खुलने का

दिनांक व समयः 06.10.2020 को 14.30 बजे। वेबसाइट विवरण का स्थान जहाँ पर

टेण्डर का पूरा विवरण देखा जा सकता हैः http://www.ireps.gov.in. 926/20 FA

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

डॉ॰ एस॰ राघाकृष्णन शिक्षा संकुल, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर।

Phone No- 0141-2715572 Website - www.rajsmsa.nic.in Email ID- rajsmsaadm@gmail.co

क्रमांक : रा.स्कू.शि.प./जय/संस्था–1 व 2/साक्षात्कार/बी–23/2020/14467 दिनांक :- 03.09.202

समग्र शिक्षा के कार्यक्रम अधिकारी-जिला कार्यालय एवं संदर्भ व्यक्ति-ब्लॉक

कार्यालय हेतु ऑनलाईन इन्टरव्यू विज्ञप्ति

हार्यक्रम अधिकारी एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, ब्लॉक कार्यालय में संदर्भ व्यक्ति के पदों पर पदस्थापन

हेतु डॉ. राधाकृष्णन शिक्षा संकुल, जयपुर स्थित राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद कार्यालय द्वारा ऑनलाईन इंटरव्य आयोजित किये जाएगे। सम्बन्धित जिला एवं ब्लॉक की पदवार रिक्तियों, दिशा—निर्देश एवं साक्षात्क

की तिथि के विवरण को परिषद की वेबसाईट http://rajsmsa.nic.in पर देखा एवं डाउनलोड किया ज

सकता है। ऑनलाईन साक्षात्कार के लिंक व समय की सूचना ऑनलाईन आवेदन पत्र में दिये गये मोबाईल

साक्षात्कार की दिनांक

21.09.2020

25.09.2020

म्बर व ईमेल पर प्रेषित की जायेगी। साक्षात्कार निम्नांकित तालिका अनसार निर्धारित तिथि को आयोजि

स्वीकृत रिक्त

198 60

602

पद

195

राजस्थान में समग्र शिक्षा के अंतर्गत अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक. जिला कार्यालय

02 नग

02 नग

अनुभवी आपूर्तिकर्ताओं से ऑनलाइन खुली निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

मद का विवरण

Annual Maintenance contract charges for the equipment at Sr. 01 above for first year after expiry of the warranty period.

Annual Maintenance contract charges for the equipment at Sr. 01

Annual Maintenance contract charges for the equipment at Sr. 0' above for 3rd year after expiry of the warranty period.

Annual Maintenance contract charges, for the equipment at Sr. 01 above for 4th year after expiry of the warranty period.

Annual Maintenance contract charges, for the equipment at Sr. 01

above for second year after expiry of the warranty period.

above for 5th year after expiry of the warranty period.

f North central railways

कार्यालय का

परियोजना

समन्वयक

समग्र शिक्षा जिला स्तर

मुख्य ब्लॉक शिक्षा

अधिकारी

समग्र शिक्षा,

ब्लॉक स्तर

का पद

कार्यक्रम

अधिकारी

व्यक्ति

चार लाख के पान मसाले

से भरी गाड़ी चोरी

इलाके में चोर पान मसाला से भरा एक प्रयास किया, लेकिन जब वह नहीं लोडिंग टेम्पो चोरी कर ले गए। इस मिली तो थाने में मुकदमा दर्ज कराया

संबंध में लालचंद शर्मा ने रिपोर्ट दी गया। वहीं, जालूपुरा थाने में गोपीनाथ

नवज्योति, जयपुर। कानोता थाना अपने स्तर पर गाड़ी को तलाशने का

एक्सपायरी डेट बदलकर खाद्य सामग्री बेचने का मामला

पांच साल में कई जिलों में फैलाया नेटवर्क

ब्यूरो/नवज्योति, जयपुर। शहर के मानसरोवर, भांकरोटा और बस्सी में एक्सपायरी डेट का सामान बेचने वाले शातिर बाप-बेटों समेत अन्य के खिलाफ की गई बडी कार्रवाई अब पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के बीच विवाद में फंसती नजर आ रही है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि हमने एक्सपायरी डेट का माल खरीदने वाली 250 फर्मों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को सूची सौंप दी है, वहीं विभाग के अधिकारियों ने कहा कि हमें पुलिस ने किसी भी फर्म की सूची नहीं सौंपी गई है।

जयपुर कमिश्नरेट की सीएसटी टीम की जांच में सामने आया है कि पांच साल में इन शातिरों ने एक्सपायरी डेट का माल बेचने के लिए कई जिलों को अपना गढ बना लिया था। यहां पर सेल्समैन के मार्फत ये आरोपित माल सप्लाई करते थे। हर रोज बडी मात्रा में ये माल मंगवाते और आमजन को सप्लाई करने के लिए बाजार में भेज देते थे। माल में शामिल सॉश आठ रुपए में ग्वालियर के गोदाम से लाते और यहां पर दस रुपए की बेच देते। यह पूरा माल ग्वालियर से गिर्राज बंसल और उसका बेटा केतन बंसल जयपुर भेजते थे। यहां पर माल को राजस्थान हैड स्विप्नल शर्मा और मार्केटिंग मैनेजर मनीष शर्मा खपाते थे। प्रकरण में स्वप्निल, मनीष, सिद्धार्थ, सुभाष और अमित गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं प्रकरण में व्यापारी ने कहा कि मैं पुलिस के सम्पर्क में हूं तो दूसरी ओर पुलिस इसे पकडने के लिए दबिश दे रही है।

मार्केटिंग मैनेजर मनीष देता था सप्लाई

आरोपी मनीष शर्मा, ओम श्री शुभ लाभ कंपनी में मार्केटिंग

सीएसटी टीम और भांकरोटा पुलिस ने गोदाम पर दिबश देकर

इन उत्पादों की कर रहे थे सप्लाई

आरोपी टेमोटा सॉश, कोकोनेट ऑयल, मैगी मसाला, रोस्ट, ड्राई

फ्रूट काजू, मुनक्का, फ्रोजन मटर, स्वीट कोर्न, पिसी हुई मिर्च,

900 आटा कट्टे, 900 काटून टमोटो सॉश, तेल की करीब दस

हजार ८०० बोतल, पानी की ४८० बोतल तीन हजार पैकेट सिंगाड़े

का आटा, २६०० कुट्टू आटा पैकेट, ५० पैकेट राजगीरा का आटा

समेत सूजी को जब्त कर शैंपलिंग होने के बाद नष्ट करवाया है।

दाल, आटा, सूजी, और तेल सस्ते दामों में खुदरा व्यापारियों,

अस्पताल कैंटीन, होटल और ढाबे पर सप्लाई करते थे।

यह सामान किया जब्त

इसे भी गिरफ्तार कर लिया।

मैनेजर है और एक-दो साल से इस कंपनी में काम

कर रहा था। ग्वालियर से ऑर्डर मिलने पर वह

भांकरोटा स्थित गोदाम से शहर की फर्मी को माल

सप्लाई देता था। आरोपी मोहित जैन ने भी इससे

खराब माल खरीदता था। मोहित से पूछताछ करने

पर जब उसने मनीष से माल खरीदना बताया तो

पुलिस ने माल खरीदने वाली 250 फर्मों की सूची स्वास्थ्य विभाग को सौंपी, अधिकारी बोले हमें कोई सूची नहीं दी गई

प्राइवेट ट्रांसपोर्ट में रोजाना भारी मात्रा

में सप्लाई करते ग्वालियर से थे बड़ी संख्या में जयपुर लाया जाता सेल्समैन था एक्सपायरी माल

व्यापारी बोला मैं पुलिस के सम्पर्क में, दबिश जारी

बेसमेंट को बना रखा था गोदाम

पुलिस के बताया कि गिरफ्तारी आरोपी मोहित जैन ने नारायण विहार स्थित खुद के मकान के बेसमेंट को गोदाम बना रखा था। वह करीब एक साल से शहर में एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री सप्लाई कर रहा था।

> इसके गोदाम पर दबिश देने के लिए पुलिस ने इसे टमाटर सॉश के 25 काटून खरीदने का ऑर्डर दिया था। इसने एक बोतल दस रूपए

में सप्लाई देने में सौदा तय किया था। पुलिस ने सॉश के 25 काटून टैम्पो में लोड करवाकर

इसके गोदाम पर दबिश दी तो भारी मात्रा में खाद्य सामग्री मिली। आरोपी इसी गोदाम से खाद्य सामग्री डेट बदलकर और कट्टों भरकर अन्य कंपनियां का लेबल लगाकर शहर के पांच स्टोर पर खराब माल सप्लाई करता था और बिल नहीं देता था।

इन जिलों में खपाते थे माल

एक्सपायरी डेट का माल सप्लाई करने वाले शातिर जयपुर शहर, बारां, भीलवाड़ा, बीकानेर, बूंदी, धौलपुर, झालावाड़, कोटा, जयपुर ग्रामीण, श्रीगंगानगर, सीकर, अलवर, दौसा, भरतपुर, टोंक, अजमेर, झुंझुनूं, नागौर जिले में माल खपाते थे। इन सभी जगहों पर टीमों को कार्रवाई करने के लिए कहा गया था। पूछताछ में ग्वालियर एमपी निवासी गिरार्ज बंसल और उनके बेटे केतन बंसल की कंपनी ओम श्री शुभ लाभ ऐग्रीटेक प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा ग्वालियर से जयपुर में एक्सपायरी डेट का माल भेजकर शहर में

सप्लाई करना सामने आया है।

पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि आरोपी स्वप्निल शर्मा कंपनी में

सारे माल का रिकॉर्ड इसके पास रहता था। यह जयपूर सहित अन्य जिलों में माल की डिमांड के अनुसार ग्वालियर स्थित कंपनी में ऑर्डर देकर माल मंगवाता था। पूलिस ने

जानकारी नहीं मिल पाई है।

एक्सपायरी डेट की खाद्य सामग्री पुलिस ने स्वास्थ्य विभाग को सौंप गोदामों पर सैंपलिंग कर कार्रवाई मानसरोवर थाने में दर्ज मामलों के अनुसंधान के आधार अन्य आरोपियों को पकड़ने के लिए दबिश दी जा रही है।

-हम तो हमेशा ही रूटीन में कार्रवाई करते हैं, लेकिन यह कार्रवाई पुलिस के निर्देशन में हो रही है। जब भी पुलिस की ओर से हमारी टीम को बुलाया

डिमांड के अनुसार माल मंगवाता स्वप्निल



राजस्थान के हैड पद पर कार्यरत था। यह भांकरोटा स्थित कंपनी में दूसरे गोदाम में बैठता था। ग्वालियर से आने वाले इसके पास से बिलिंग सिस्टम जब्त किया है, लेकिन कंपनी

द्वारा बिलिंग सिस्टम का ऑनलाइन सिस्टम बंद करने पुलिस को विशेष

सप्लाई करने वालों की सूची दी है, अब स्वास्थ्य विभाग इन करेगा। वहीं भांकरोटा और

जाता है, हम तुरंत मौके पर टीम भेज कर उनका सहयोग करते हैं। पुलिस की ओर से हमें किसी भी फर्म की कोई सूची नहीं दी गई है।

-अजयपाल लाम्बा, अतिरिक्त पुलिस आयुक्त प्रथम

-डॉ. नरोत्तम शर्मा, सीएमएचओ प्रथम जयपुर।

रिटायर्ड फौजी के बैग में कारतूस

जयपुर। एयरपोर्ट पर चेकिंग के दौरान रिटायर्ड फौजी के बैग में कारतूस मिलने का मामला सामने आया है। पुलिस एयरपोर्ट सिक्युरिटी स्क्रीनर सुरेंद्र सिंह की रिपोर्ट पर आर्म्स एक्ट में मुकदमा दर्ज कर पूर्व सैनिक से पूछताछ की जा रही है। थाना प्रभारी शिव दयाल ने बताया कि आंध्रप्रदेश निवासी रामाराव आर्मी से रिटायर्ड है। वह जोधपुर से रविवार को जयपुर एयरपोर्ट आए थे। यहां से उसकी हैदराबाद के लिए

जेबतराशों ने ७० हजार किए पार

नवज्योति, जयपुर। कोतवाली थाना इलाके में जेबतराशों ने एक किराणा व्यापारी की जेंब से 70 हजार रुपए पार कर लिए। इस संबंध में व्यापारी देवेन्द्र कुमार जैन ने रिपोर्ट दी है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित चौथ का बरवाड़ा से 70 हजार 500 रुपए लेकर जयपुर में दुकानदारों को भुगतान देने के लिए आया था। वह सिंधी कैम्प से छोटी चौपड के लिए ई-रिक्शा में बैठकर आ रहा था। तभी किसी ने जेब से रुपए निकाल लिए।

उत्तर मध्य रेलवे, प्रयागराज ई-टेन्डरिंग निविदा सूचना

पद हेतु आवश्यक योग्यता

शिक्षा विभाग

राजस्थान सरकार)

समकक्ष पद के

अधिकारी

शिक्षा विभाग

(राजस्थान सरकार) में

. हार्यरत व्याख्याता एवं

समकक्ष पद के

चयनित

अभ्यर्थियों क

अतिरिक्त पैनल

तैयार करने हेतु

समस्त स्वीकृत

पदों पर प्राक्षात्कार लिया

जायेगा।

राज्य परियोजना निदेशक.

समग्र शिक्षा एवं आयुक्त स्कूल शिक्षा

निविदा संख्या:ATM-AGC-2020-08 भारत के राष्ट्रपति की ओर से तथा उनके लिये वरि0 मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, उ०म००रे०,आगरा द्वारा निम्नलिखित कार्य के लिये एकल पैकिट पद्धति के तहत खुली मोहर बन्द निविदा आमंत्रित की जाती है:-

कार्य का नाम उसके आगरा मण्डल के निम्नलिखित रेलवे स्टेशनों, रेलवे कार्यालयों एवं रेलवे कालोनियों में ए.टी.एम. की स्थापना,

	स्स्थान सहित		संचालन एवं रख-रखाव का कार्य।					
क्र म	स्स्टेः	शन का नाम	ए०टी०एम० की संख्या	ए०टी०एम० का स्थान	बयाना राशि	निविदा फार्म की कीमत	ए०टी०एम० का एरिया	
01.	आगरा छावनी		01	आरक्षण केन्द्र के गेट के बराबर में	₹10000/-	₹1180/-	6 X 6 Sqft	
			01	रेल ढाबे के पास आरक्षण केन्द्र की तरफ	₹10000/-	₹1180/-	6 X 6 Sqft	
			01	रेल ढाबे के पास मेन गेट की तरफ	₹10000/-	₹1180/-	6 X 6 Sqft	
02.	मथुरा मथुरा जं.			द्वितीय श्रेणी प्रतिक्षालय में आरक्षण कार्यालय के पास	₹10000/-	₹1180/-	6 X 6 Sqft	
	जं.	प्रथम प्रवेश द्वार	01	आर0एम0एस0 एवं पार्सल कार्यालय के पास	₹10000/-	₹1180/-	6 X 6 Sqft	
		मथुरा जं. द्वितीय	01	द्वितीय प्रवेश द्वार रेलवे बिल्डिंग की तरफ मेला प्रतिक्षालय कक्ष के सामने	₹10000/-	₹1180/-	6 X 6 Sqft	
		प्रवेश द्वार		द्वितीय प्रवेश द्वार रेलवे बिल्डिंग के कोने में बुकिंग ऑफिस की तरफ	₹10000/-	₹1180/-	6 X 6 Sqft	
		मथुरा जं. तृतीय	01	एफ0ओ0बी0 की सीढी तथा रेलवे मजिस्ट्रेट कार्यालय के सामने	₹10000/-	₹1180/-	6 X 6 Sqft	
		प्रवेश द्वार	01	बुकिंग हॉल के बराबर में डी०जी० रूम की तरफ	₹10000/-	₹1180/-	6 X 6 Sqft	
03.	आ	आगरा फोर्ट		प्रवेश द्वार से 125 मीटर की दूरी पर आरव्यीवएफव पोस्ट की तरफ	₹10000/-	₹1180/-	6 X 6 Sqft	
04.	को	कोसीकलां		सर्कुलेटिंग एरिया में साईकिल स्टैण्ड प्रवेश द्वार के पास	₹10000/-	₹1180/-	6 X 6 Sqft	
	70		01	बुकिंग ऑफिस के सामने सर्कुलेटिंग एरिया की तरफ	₹10000/-	₹1180/-	6 X 6 Sqft	
	अछनेरा		01	प्रवेश द्वार की सीढी के पास तथा बुकिंग ऑफिस की तरफ	₹10000/-	₹1180/-	6 X 6 Sqft	
				07 अन्य लोकेशन (रेलवे कॉलोनी / कार्यालय एवं संस्थान				
06.	आ	आगरा छावनी		आगरा रेलवे इन्स्टीटयूट कम्पाउन्ड	₹10000/-	₹1180/-	7.5 Sqm.	
			10200		E400001	#4400I	7.50	

₹10000/- ₹1180/- 7.5 Sqm. आगरा रेलवे अस्पताल परिसर मण्डल ₹10000/- ₹1180/- 7.5 Sqm. रेल प्रबंधक कम्पाउन्ड आगरा आर०पी०एफ0 गार्ड रूम के पास ₹10000/- ₹1180/- 7.5 Sqm. ईदगाह बस स्टैण्ड के पास नार्थ कॉलौनी आगरा ₹10000/-₹1180/-7.5 Sam. अधिकारी रेलवे कॉलोनी के गेट पर मसाल सेन्टर के पास मथुरा रेलवे कॉलोनी 07. मधुरा जं ₹10000/- ₹1180/- 7.5 Sqm. अछनेरा रेलवे कॉलोनी 01 ₹10000/- ₹1180/- 7.5 Sqm. 08. अछनेरा

09. लाइसेंस फीस: प्रत्येक ए०टी०एम० लोकेशन हेतु अधिकतम ऑफर देन वाल बैंक को ए०टी०एम० का आवंटन किया जायेगा: 10. निवदा फार्म की कीमत: 1180 /- प्रत्येक ए०टी०एम० लोकेशन के लिये अलग-अलग । 11. बयाना राशि का विवरण: वरि० मण्डल वित्त प्रबंधकए उ०म०२०–आगरा के पक्ष में राष्ट्रीयकृत/शेडयूल बैंक द्वारा 10,000/– का डी0डी0/बैंकर चौक / एफ0डी0आर0 मलरूप में निविदा फार्म के साथ संलग्न करना अनिवार्य हैए अन्यथा निविदा को स्वीकार नहीं किया जायेगा एवं निविदा निरस्त मानी जायेगी। प्रत्येक ए०टी०एम० लोकेशन के लिये बयाना राशि अलग—अलग देनी होगी। **12. कार्यालय का पता** जहाँ से निविदा फार्म खरीदा जा सकता है : कार्यालय वरि० मण्डल वाणिज्य प्रबंधक मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय आगरा छावनी आगरा। 13. कार्य समापन अवधिः 05 वर्ष, 14. निविदा फार्म प्राप्त करने की अन्तिम दिनांक एवं समयः किसी भी कार्य दिवस में दिनांक 05.10.2020. समय 11:00 बजे तक। 15. निविदा फार्म प्रस्तत करने की अन्तिम तारीख एवं समयः निविदा फार्म पूर्ण रूप से भरकर दिनांक 05.10.2020 को समय 15.00 बजे तक स्वीकार किये जायेंगे, उपरोक्त निर्धारित दिनांक एवं समय के बाद प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। 16. निवदा खोलने की दिनांक एवं समय: निवदा दिनांक 05.10.2020 को समय 15.30 बजे उपस्थित निविदाकर्ताओं के समक्ष खोली जायेगी तथा किसी कारणवश निविदा फार्म प्राप्त एवं खोले जाने की दिनांक को अवकाश घोषित होने पर उक्त निविदा फार्म अगले कार्य दिवस को प्राप्त एवं खोले जायेंगे। 17. निविदा प्राप्त करने एवं खोलने का स्थानः कार्यालय वरि० मण्डल वाणिज्य प्रबंधक, मण्डल रेल प्रबंधक कार्यालय.आगरा छावनी, आगरा । 18. वेबसाइट विवरण एवं नोटिस बोर्ड का **स्थान जहाँ निविदा का पूर्ण ब्यौरा देखा जा सकता है**ः निविदा सूचनाए टैण्डर फार्म तथा नियम एवं शर्ते उत्तर मध्य रेलवे की वैबसाइट http://www.ncr.indianrailways.gov.in पर उपलब्ध हैं । यदि निविदा प्रपत्र वैबसाइट से डाउन लोड किये जाते हैं तो निविदाकर्ता द्वारा निविदा फार्म की कीमत का डी0डी0 / बैंकर चौक राष्ट्रीयकृत / शेडयूल बैक द्वारा वरि० मण्डल वित्त प्रबंधकए उ०म०रे०, आगरा के पक्ष में जारी, निविदा फार्म के साथ मूल रूप में संलग्न करना आवश्यक है अन्यथा निविदा निरस्त कर दी जायेगी। 19. ए०टी०एम० लोकेशनः मद क्रमांक ०१ से 08 में दर्शायी गयी है। 20.निविदा ऑफर की वैधताः निविदा खोलने की दिनांक से 90 दिन। 21. रेल प्रशासन को यह अधिकार होगा कि वह बिना कारण बताये एक या समस्त निविदाओं को निरस्त कर सकता है। 22. निविदा प्रपत्र राशि का मूल्य वापस नहीं किया जायेगा। निविदा फार्म हस्तान्तरणीय नही है। 23. रेलवे स्टेशनों पर ए०टी०एम० के लिये अधिकतम क्षेत्रफल ०६ फीट x ०६ फीट तथा रेलवे कॉलोनियों, कार्यालयों एवं संस्थानों में ए०टी०एम० के लिये अधिकतम क्षेत्रफल 7.5 वर्गमीटर । 24. प्रत्येक ए०टी०एम० लोकेशन हेतु अलग अलग निविदा फार्म प्रयोग किया जाये। 25. निविदाकर्ता के द्वारा बैंक का पूरा नाम, पता एवं स्टेशन / लोकेशन का विवरण जिसके लिए निविदा में भाग लिया गया है, सील बन्द लिफाफे पर आवश्यक रूप से स्पष्ट शब्दों में लिखा होना चाहिए। 935/20(AN)

नीट एग्जाम पेपर नहीं देने पर निदेशिका और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी

नवज्योति,जयपुर। नीट बौली सवाई माधोपुर हाल महावीर होने वाले नीट एग्जाम का पेपर

एग्जाम से आठ दिन पहले स्कूल निदेशिका का अंतरंग वीडियो वायरल करने और उसकी बेटी को जान से मारने की धमकी देकर पेपर मांगने वाले छात्र

को मालपुरा गेट पुलिस

आरोपी छात्र महेन्द्र बैरवा निवासी फोन कर 13 सितंबर को आयोजित फोन किए थे।

नगर सांगानेर का रहने मांगा था। पेपर नहीं देने पर वाला है। थाना प्रभारी निदेशिका अंतरंग वीडियो वायरल नेमीचंद चौधरी ने करने और उसकी बेटी को जान बताया आरोपी छात्र से मारने की धमकी दी थी। नीट ने छह सितंबर को एग्जाम की तैयारी ठीक से नहीं थाना इलाके स्थित होने पर उसने यू ट्यूब पर क्राइम एक स्कल की सीन देकर यह रास्ता चना था। िन देशिका को आरोपीने इंटरनेट के जरिए ही ने सोमवार को गिरफ्तार किया है। व्हाट्सएप के जरिए मैसेज और निदेशिका का मोबाइल नंबर लेकर

है। पुलिस मामले की जांच कर रही मार्ग स्थित फैक्ट्री संचालक विनोद ने है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित लोडिंग सुपरवाइजर के खिलाफ फैक्ट्री से चांदी चुराने का आरोप लगाया है। इधर. गाड़ीं टेम्पो में करीब चार लाख रुपए करधनी थाना इलाके में चोर एक बंद का पान मसाला भरकर पुराना बगराना एरिया में खाली होने गया था। ड्राइवर मकान के ताले तोड़कर नकदी और फैक्ट्री के अंदर गया तो पीछे से अज्ञात जेवर चोरी कर ले गए। इस संबंध में चोरी गाडी को चुरा ले गए। पीडित ने ग्रीन पार्क डी नांगल जैसा बोहरा निवासी पुलिस को सूचना देकर कुछ दिन तो रघुवीर यादव ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है।

== क्षेत्रक बैला कासा फैशन एंड रिटेल लिमिटेड

नंजीकृत कार्यालयः ई–102, 103, ईपीआईपी, सीतापुरा औद्योगिक क्षेत्र, जयपुर–302022 (राजस्थान (CIN L17124RJ1996PLC011522), दूरभाषः 0141-2771844, ई-मेलआईडीः cs@bellacasa.in, वेबसाइटः www.bellacasa.in

एतद् द्वारा सचित किया जाता है कि कम्पनी की 24वीं वार्षिक साधारण सभा(''एजीएम'') बुधवार, सितम्ब 30, 2020 को दोपहर 12:00 बजे IST से वीडियो कॉन्फ्रेसिंग (''वीसी'') / अन्य ऑडियो विज्ञाल माध्यमों (''ओएवीएम'') की सुविधा के माध्यम से कम्पनी अधिनियम, 2013 तथा उसके अंतर्गत निर्मित नियमों तथा सेबी (सूचीयन दायित्वों तथा प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियम, 2015 के साथ कॉरपोरेर कार्य मंत्रालय द्वारा जारी सक्येलर नं. 14/2020, 17/2020 तथा 20/2020 तिथि 8 अप्रैल, 2020, 13 अप्रैल 2020 तथा 5 मई 2020, क्रमशः (''एमसीए सर्क्युलर'') तथा भारतीय प्रतिभृति एवं विनियम बोर्ड द्वारा जार्र सर्क्युलर सेबी / एचओ / सीएफडी / सीएमडी१ / सीआईआर / पी / 2020 / 79 तिथि 12 मई 2020 (''सेबी सक्युंलर'') के अनुसार लागू होने वाले प्रावधान के अनुपालन में, किसी स्थान पर सदस्यों की भौतिक उपस्थिति के बिनाओं मंत्रित की गई है।

24वीं एजीएम की सुचनाऔर 2019-2020 वर्ष की वार्षिक रिपोर्ट उन सभी सदस्यों को केवल ईमेल के द्वार भेजी जायेगी जिनके ईमेल पते कम्पनी के पास या उनके सम्बन्धित डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंटस के पास पंजीकृत हैं। उपरोक्त सभी प्रपत्र कम्पनी की वेबसाइट www.bellacasa.in तथा बीएसई लिमिटेड की वेबसाइट www.bseindia.com पर भी उपलब्ध है। ऐसे शेयरधारक जिनके ईमेल पते उनके डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स के पास पंजीकृत नहीं हैं वे इसे कम्पनी / डिपॉजिटरी के पास पंजीकृत करवायें। सदस्यों कं 24वीं एजीएम की सचना और वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकताओं को एमसीए सर्क्युल तथा सेबी सक्युंलर के अनुसार भेजने की आवश्यकता नहीं है एवं इसका अनुपालन किया गया है।

सदस्य केवल वीसी / ओएवीएम की सुविधा के माध्यम से एजीएम में भाग ले सकते हैं।रिमोट ई-वोटिंग वे विस्तत दिशा-निर्देश और 24वीं एजीएम में इलेक्ट्रानिक माध्यम से मतदान करने की प्रक्रिया एजीएम की

उन शेयरधारकों के लिए प्रक्रिया जिनके ईमेल पते इस सूचना में प्रस्तावित प्रस्तावों के लिए ई. वोटिंग के लिए लॉगिन क्रेडेंशियल्स प्राप्त करने के लिए डिपॉजिटरी के साथ पंजीकृत नहीं हैं:

 भौतिक शेयरधारकों के लिए – क्रुपया फोलियो नंबर शेयरधारक का नाम, शेयर प्रमाण पत्र की स्कैन की गई कॉपी (आगे और पीछे) पैन (पैन कार्ड की स्व.सत्यापित स्कैन की हुई प्रति, आधार (सेल्फ अटेस्टेड स्कैन की गई प्रति) जैसे आवश्यक विवरण कार्ड, कंपनी आरटीए की ईमेल आईडी पर प्रदान करें।

2. डी मैंट शेयरधारकों के लिए - कृपया डीमैंट खाता विवरण (सीडीएसएल -16 अंकों की लाभार्थ आईडी या एनएसडीएल -16 अंक डीपी आईडी सीएल आईडी) नाम, ग्राहक मास्टर या समेकित खाता विवरण की प्रति, पैन (पैन कार्ड की स्व.सत्यापित स्कैन कॉपी) आधार (सेल्फ अटेस्टेड स्कैन की गई प्रति) जैसे आवश्यक विवरण कार्ड, कंपनी /आरटीए की ईमेल आईडी पर प्रदान करें।

पृछताछ के लिये सदस्यगण www.evotingindia.com के सहायता खंड Frequently asked questions ('FAQs') तथा ई-घोटिंग मैन्युअल पर देख सकते हैं अथवा helpdesk.evoting@cdslindia.com पर ई-मेल कर सकते हैं।

बैला कासा फैशन एंड रिटेल लिमिटेड के लिये दिनांक:07, सितंबर 2020





सोनिका गुप्ता

 ऊपर नामित आवेदक ने "छत्तीसगढ़ में आईपीपीएस के लिए डब्ल्यूआर-एनआर में पारेषण प्रणाली मजबूतीकरण'' के अधीन याचिका 1: सम्पत्ति 1: मौजूदा एचवीडीसी कन्वर्टर स्टेशनों क 3000 मेगावाट से 6000 मेगावाट में उन्नयन हेतु \pm 800 केवी चन्पा एवं कुरूक्षेत्र एचवीडीसी स्टेशनों का विस्तार पोल-III (1500 मेगावाट) और सम्पत्ति 2: मौजूदा एचवीडीसी कन्वर्टर स्टेशनों का 3000 मेगावाट से 6000 मेगावाट में उन्चयन हेतु ± 800 केवी चम्पा एवं कुरुक्षेत्र एचवीडीसी स्टेशनों क विस्तार पोल—IV (1500 मेगावाट) के लिए डीओसीओ से 31.03.2024 तक पारेषण किराया वे निर्धारण हेतु केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग के समक्ष आवेदन दायर किया है।

2. ऊपर उल्लेखित पारेषण प्रणाली की सम्मिलित सम्पत्ति के लिए लामार्थी हैं: (1) राजस्था राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड (2) अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमि. (3) जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमि. (4) जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमि. (5) पंजाब राज्य विद्युत बोर्ड (६) हरियाणा पावर परचेज सेंटर (७) पावर डेवलपमेंट विभाग, जम्मू एवं कश्मीर सरकार (८) उत्तर प्रदेश पावर निगम लिमि. (९) दिल्ली ट्रांसको लिमि. (१०) बीएसईएस यमुना पावर लिमि. (११) बीएसईएस राजधानी पावर लिमि. (१२) नॉर्थ दिल्ली पावर लिमि. (१३) चंडीगढ़ प्रशासन (14) उत्तरांचल पावर निगम लिमि. (15) उत्तर मध्य रेलवे (16) नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (17) हिमाचल प्रदेश राज्य विद्यंत बोर्ड (18) मध्य प्रदेश पावर प्रबंधन कंपनी लिमि. (19) मध्य प्रदेश पावर पारेषण कंपनी लिमि. (20) मध्य प्रदेश औद्योगिक केंद्र (21) महाराष्ट्र राज्ये विद्युत वितरण कंपनी लिमि. (22) महाराष्ट्र राज्य विद्युत पारेषण कंपनी लिमि (23) गुजरात ऊर्जा विकास निगम लिमि. (24) गुजरात ऊर्जा पारेषण निगम लिमिटेड (25) विद्युत विभाग, गोवा सरकार (26) विद्युत विभाग, दमन एवं दीव प्रशासन (27) विद्युत विभाग, दादर नागर हवेली प्रशासन (28) छत्तीसगढ़ राज्य पावर पारेषण कंपनी लिमि. (29) छत्तीसगढ़

राज्य विद्युत बार्ड (30) छत्तासगढ़ राज्य पावर वितरण कंपना लिम.।						
큙.	विषय	याचिका 1				
₹.						
1	परियोजना की अनुमोदित पूंजी लागत (रु. करोड़ में)	5151.37				
2	पूंजी लागत को अनुमोदित करने वाला प्राधिकरण	निदेशक मंडल				
3	वाणिज्यिक संचालन की निर्धारित तिथि	20.03.2018				
4	वाणिज्यिक संचालन की तिथि	05.10.2019, 30.03.2020				
5	डीओसीओ पर पूंजी लागत (रु. करोड़ में)	2007.74, 1395.80				
3. किराया का विवरण: 2019-24 (रु. लाख में)						

याचिका सम्पत्ति 2019-20 2020-21 2021-22 2022-23 2023-24 सम्पत्ति-। |14244.05| 30606.54| 32132.51| 33067.59| 33222.64 सम्पत्ति-।। 109.25 | 20359.87 | 20981.75 | 21341.56 | 21312.31 |

किराया निर्धारण के लिए किये गये आवेदन की प्रति आवेदक की वेबसाइट ww.powergridindia.com पर पोस्ट की गई है। आवदेन में उल्लेखित किराया निर्धारण के लिए प्रस्तावों पर लाभार्थी सहित किसी भी व्यक्ति द्वारा सुझाव एवं आपत्तियां, यदि हो, की एक प्रति आवेदक के कॉर्पोरेट कार्यालय

व्याचा द्वारा चुना देव जानाराय, याद त्र, का रूप प्राच जावराय के कावाराय द्वाराय 'सीदामिनी', 'लॉट नं. 2, सेक्टर-29, गुड़गांव-12201, हरियाणा के साथ सचिव, केन्द्रीय है विद्युत विनियामक आयोग, तृतीय एवं चतुर्थ तल, चंद्रलोक भवन, जनपथ, नई ठुं दिल्ली-110001 (या कोई अन्य पता, जहां आयोग का कार्यालय स्थित हो) के समक्ष इस ट्व सचना के प्रकाशन तिथि से 30 दिनों के अंदर दर्ज करा सकता है। वरिष्ठ महाप्रबंधक (वाणिज्यिक)

पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड पंजीकृत कार्यालय : बी-9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली-110016

नेगमित कार्या. : "सौदामिनी", प्लॉट सं.—2, सैक्टर—29, गुडगांव, हरियाणा—122001, फोन : 0124-2571700-71 वेबसाइट : www.powergridindia.com सीआईएन :L40101DL1989GOI038121 एक महारत्न पीएसय

रफ्तार का कहर

कार ने स्कूटी को मारी टक्कर, एक की मौत

बेटे को दवा दिलाने जा रहे थे पिता और चाचा

कार मृतक चाचा को घसीटते हुए ले गई दस फीट तक नवज्योति, जयपुर।टोंक रोड

> क्लीनिक पर बेटे को दवा दिलाने जा रहे पिता और चाचा को तेज रफ्तार कार ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कार घायल चाचा को

स्थित एक

पिता और बेटे को उपचार के बाद शुरू कर दी है।

छुट्टी दे दी गई। यह घटना टोंक रोड पर गट्टे वाला बाबा पुलिय के पास हुई। पुलिस ने बताया कि मृतक इरफान

खान (21) गट्टे वाला बाबा पुलिय का रहने वाला था। वह दोपह करीब एक बजे अपने बडे भाई अनीश और भतीजे अलफाज के दवा दिलाने के लिए स्कूटी से टोंक पुलिया के नीचे एक क्लीनिक प जा रहे थे। पेट्रोल पंप चौराहा वे सामने पीछे से आई तेज रफ्ता कार ने तीनों को टक्कर मार दी हादसे के दौरान इरफान स्कुटी फ पीछे बैठा हुआ था। अनीश स्कुर्ट चला रहा था और अलफाज बीच दस फीट तक में बैठा हुआ था। कार टक्कर मारने घसीटते हुए ले के बाद इरफान को घसीटते हुए गई। मौके पर लेगई।वहीं अलफाज और अनीश मौजूद लोगों ने साइड में गिर गए। इन दोनों के घायलों को इलाज हाथ, पैर और सिर में चोटें आई के लिए अस्पताल है। वहीं हादसे के बाद कार चालक पहुंचाया, जहां मौके से फरार हो गया। पुलिस ने चाचा की मौत हो गई। वहीं घायल कार जब्त कर चालक की तलाश

BELLA CASA FASHION & RETAIL LIMITED Regd Office: E-102,103, EPIP, Sitapura Industrial Area, Jaipur. CIN: L17124RJ1996PLC011522 EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2020

EXTRACT OF GRADDIED FINANCIAE RESOLTS FOR THE GOARTER ENDED SOTT JONE, 2020								
(Rs in lacs except for EPS)								
SI. Particulars		30th June,2020 (Un-audited)	Quarter ended 31st March,2020 (Un-audited)	30th June,2019 (Un-audited)	Year ended 31st March,2020 (Audited)			
1.	Total Income from Operations	253.43	3,556.97	3,878.97	16,353.72			
2.	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/ or Extraordinary items)	(154.30)	115.12	376.34	1,210.59			
3.	Net Profit for the period before Tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(154.30)	115.12	376.34	1.210.59			
4.	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(156.15)	96.99	276.21	913.07			
5.	Total Comprehensive Income for the period [Comprising profit for the period(after tax) and other comprehensive Income (after tax)]	(/	99.69	276.21	915.78			
6.	Equity Share Capital	1,147.50	1,147.50	1,147.50	1,147.50			
7.	Earning Per Share (of Rs. 10 /- each) (for continuing and discontinued operations)							
	1. Basic	(1.36)	0.87	2.41	7.98			
	2 Diluted	(1.36)	0.87	2./11	7 08			

2. Diluted

Disclosures The above financial results are reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors a

s meeting held on September 05, 2020. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter ended 30th June 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full ormat of the these Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and or

Company's website www.bellacasa.in. s. On the basis of amendment dated 24th July,2020 for IND AS 116 ``Leases`` rent waived off for the quarter ended Jun 30th, 2020 has been credited as Income in the Statement of Profit & Loss and no modification has been made for Lease.

4. In march 2020, the WHO declared the COVID-19 outbreak as a pandemic which continues to spread across the country and the globe. On 25th March 2020, the Government of India has declared this pandemic a health emergency and ordered the lockdown throughout the country. Since them the Government of India has progressively relaxed lockdow conditions and has allowed most of the industries to resume operations in phased manner. The Company's operation and financialresults for the quarter ended June 30, 2020 have been adversely impacted by the outbreak of COVID-19 andemic and the lockdown announced by the Government of India due to which operations were suspended for part o he quarter and gradually resumed whith requisite precautions. The results for the quarter are, therefore, not mparable with those for the previous quarters.

Date: 05th September,2020

For and on behalf of the Board of Directors of Bella Casa Fashion & Retail Limi [Harish Kumar Gupta] Chairman & Whole Time Director (DIN: 01323944)

FINANCIAL EXPRESS

BELLA CASA FASHION & RETAIL LIMITED Regd Office: E-102,103, EPIP, Sitapura Industrial Area, Jaipur. CIN: L17124RJ1996PLC01152 Tel: 0141-2771844, Email: saurav@bellacasa.in, naresh@bellacasa.in, website: www.bellacasa

EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED 30TH JUNE, 2020

(Rs in lacs except for EPS) Year ended **Particulars** 30th June,2020 31st March,2020 Oth June,2019 31st March,2020 No (Un-audited) (Audited) (Un-audited) (Un-audited) Total Income from Operations 16,353.72 253.43 3,556.97 3,878.97 (154.30)1,210.59 Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/ 115.12 376.34 or Extraordinary items Net Profit for the period before Tax (after Exceptional (154.30)376.34 1.210.59 115.12 and/or Extraordinary items) (156.15) 96.99 913.07 Net Profit for the period after tax (after Exceptional 276.21 and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising (156.15)99.69 276.21 915.78 profit for the period(after tax) and other comprehensive Income (after tax)] 1,147.50 6. Equity Share Capital 1,147.50 1,147.50 1,147.50 Earning Per Share (of Rs. 10 /- each) (for continuing and discontinued operations) (1.36)1. Basic 2.41 (1.36)0.87 2.41 7.98 2. Diluted

1. The above financial results are reviewed by the Audit Committee and thereafter approved by the Board of Directors at its meeting held on September 05, 2020.

2. The above is an extract of the detailed format of Financial Results for the quarter ended 30th June 2020 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the these Financial Results are available on the websites of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and on Company's website www.bellacasa.in. 3. On the basis of amendment dated 24th July,2020 for IND AS 116 ``Leases`` rent waived off for the quarter ended June

30th, 2020 has been credited as Income in the Statement of Profit & Loss and no modification has been made for Lease. 4. In march 2020, the WHO declared the COVID-19 outbreak as a pandemic which continues to spread across the country and the globe. On 25th March 2020, the Government of India has declared this pandemic a health emergency and ordered the lockdown throughout the country. Since them the Government of India has progressively relaxed lockdown conditions and has allowed most of the industries to resume operations in phased manner. The Company's operations and financialresults for the quarter ended June 30, 2020 have been adversely impacted by the outbreak of COVID-19 pandemic and the lockdown announced by the Government of India due to which operations were suspended for part of the quarter and gradually resumed whith requisite precautions. The results for the quarter are, therefore, not comparable with those for the previous quarters.

Place: Jaipur Date: 05th September,2020

Chairman & Whole Time Director (DIN: 01323944)

For and on behalf of the Board of Directors of Bella Casa Fashion & Retail Limited

[Harish Kumar Gupta]

पंजाब एण्ड सिंध बैंक जहाँ सेवा ही जीवन - ध्येय है



[Rule 8(1)] POSSESSION NOTICE (For Immovable Property)

Notice is here by given under Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act. 2002 and in exercise of the powers

conferred under section 13(12) read with Rule No. 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued a Demand Notice U/S 13(2) on the date mentioned below in the table and stated hereinafter calling upon to repay the amount within 60 days from the date of receipt of the said notice. As the borrower(s)/guarantor(s) having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower(s)/guarantor(s) and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule No. 8 The borrower(s) /guarantor(s) in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealing with the property

will be subject to the charge of PUNJAB & SIND BANK, Maholi Road, Mathura (U.P.) Branch, for the amount given herein below together with future interest. Amt ols (as mentioned in Date Date of

Borrower(s)/ Guarantor(s)	Description of the Mortgaged Property	the Notice u/s 13(2))	of Notice	Posse- ssion
Mr. Ghosi urf Ghos Mohammad S/o Mr. Sabuddin (Borrower), Mr. Mohammad Abid S/o Mr. Mohammad Ghosi (Guarantor)	All the part and parcel of the immovable property bearing Property No.1 - Residential House of Water Rate No. 146/461, Measuring East-17.9 Feet, West 10.7 feet, North-19.1 feet and South- one part 9 and after curb of 3 feet another part 9.4 feet, toal area 28.50 Sq. Yard=23.83 Sq. Mtr. Situated at Mohalla Deeg Gate Mathura Tehsil & Distt. Mathura U.P. 281003 (a) Property bounded as: North: House of Ghasita, West: House of Mohd. Nizam East: Door and exit of house and Shamlati Chok and gali No. 4 feet South: House of Ghos Mohammad (Purchaser). Property No-2- Residential House of Water Rate No. 146/460, Measuring East-one part 15-4.5 feet and after curb of 5.3 feet another part 8.10 feet, West 16.7 feet, North-one part 8.6 & Second part 1.3 feet and after curb of 6.8, third 12.9 feet, and South- 25.6 feet, being total area 55.54 Sq. Yard=46.44 Sq. Mtr. Situated at Mohalla Deeg Gate Mathura Tehsil & Distt. Mathura U.P. 281003 (b) Property is Bounded as: North: House of Islam & Abdul West: House of Azad East: House of Ghasita South: Gali wide 10 feet	Rs. 9,62,871.11/- as on 01.01.2020 inclusive of interest upto 31.12.2019 together with future interest at the applicable rate on the aforesaid amount and incidental expenses, costs, charges etc. thereon.	07.01.2020	03.09-2020
DATE:.03.09.2020	PLACE : MATHURA Sd/- AUT	HORISED OFFICER, PUNJ	AB & SII	ND BAN

DATE:.03.09.2020

Sd/- AUTHORISED OFFICER, PUNJAB & SIND BANK



(Largest Manufacturer of Springs for LHB Coaches)

Registered Office: KM 25/4, Kalpi Road, Rania, Kanpur-Dehat. 209304 CIN: L17119UP1981PLC005212

E-mail: c.s@frontiersprings.co.in, Website: http://www.frontiersprings.co.in Tel. No. 0511-240212-13, 0512-2691207-08, Fax No. 0512-2691209

NOTICE OF 40TH ANNUAL GENERAL MEETING, E-VOTING INFORMATION AND BOOK CLOSURE

Notice is hereby given that the 40th Annual General Meeting ("AGM") of the Members of Frontier Springs Limited ("the Company") will be held on Wednesday, September 30, 2020 at 12:30 P.M. through electronic mode [Video Conferencing ("VC") or Other Audio Visual Means [("OAVM')] without the physical presence of the Members at a common venue, in compliance with General Circular No. 14/2020 Dated April 08, 2020, No. 17/2020, dated April 13 2020 and No. 20/2020 dated May 05, 2020 issued by Ministry of Corporate Affairs ("MCA Circulars") and other applicable provisions of the Companies Act, 2013 and circular issued by the Securities and Exchange Board of India Dated May 12, 2020 ("SEBI Circular") to transact the business as set out in the Notice convening the 40th AGM Dated September 5, 2020. Notice is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013 read with Rule 10 of the Companies

(Management and Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of the (Listing Obligation & Disclosure Requirements) Regulations, 2015, that the Register of Members and the Share Transfer Books of the Company shall remain closed from Wednesday, 23" September, 2020 to Wednesday, 30" September, 2020 (both dates inclusive) for the purpose of Annual General Meeting. In compliance with the said MCA circulars and SEBI Circular, the Company has sent the Notice of the AGM and Annual

Report 2019-20 on 5" September 2020, through electronic mode to all the members whose email IDs are registered with the Company/ Depository Participant(s). These documents are also available on the website of the Company at www.frontiersprings.co.in, website of the Stock Exchange i.e. BSE Limited at www.bseindia.com. Pursuant to provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 and Rule 20 of the Companies (Management and

Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, members holding shares in physical or dematerialized form, as on the cut-off date i.e. 23[™] September, 2020, may cast their vote electronically on the business as set out in the Notice of 40[™] AGM of the Company through e-voting platform of CDSL through their portal https://www.evotingindia.com. The detailed procedure/instructions for e-voting are contained in the Notice of 40° AGM.

In this regard, the Members are hereby further notified that: (a) Remote e-voting through electronic means shall commence from 27th September, 2020 (9.00 A.M.) and end on 29th

Place:- Kanpur

Date:- 07th September, 2020

financialexp.epapr.in

- September, 2020 (5.00 P.M.). (b) Cut-off date for the purpose of e-voting shall be 23rd September, 2020.
- Persons who have acquired shares and become members of the Company after the dispatch of Notice and who
- are eligible shareholders as on the cut-off date i.e. 23" September, 2020, may contact Mr. Lalita Prasad on (011) 42541958 or lalitap@alankit.com to obtain the login id and password. Remote e-voting through electronic means shall not be allowed beyond 5.00 P.M. on 29th September, 2020.
- Members present at the meeting through VC / OAVM facility and who had not cast their votes on the resolutions
- through remote e-voting and are otherwise not barred from doing so, shall be eligible to vote through e-voting system during the AGM. The instructions for attending the AGM through VC/ OAVM are provided in the Notice of Members who have cast their votes by remote e-voting prior to the AGM may also attend/participate in the AGM
- through VC/OAVM facility, but shall not be allowed to cast their votes again.
- A person whose name is recorded in the register of members or in the register of beneficial owners maintained by the depositories as on the cut-off date only shall be entitled to avail of the facility of remote e-voting as well as evoting during the AGM. (h) In case of any grievance in connection with the facility for remote e-voting, the shareholders may contact Mr. Nitin
- Kunder (022-23058738) or refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) section/e-voting user manual for shareholders available at the Downloads section on https://www.evotingindia.com. Members who have not registered their email addresses and mobile numbers, are requested to temporarily get

themselves registered with Alankit Assignments Limited; Contact Official: Lalita Prasad; Email: lalitap.alankit.com;011-42541958to receive copies of the Annual Report for FY 2019-2020 along with the Notice of the 40" AGM containing the detailed procedure and instructions for remote e-voting and instructions for participation In the AGM through VC/OAVM facility.

Please keep your most updated email id registered with the Company /your Depository Participant to receive timely communications.

Dhruv Bhasin

For Frontier Springs Ltd.

Old Address

BNP PARIBAS MUTUAL FUND

Investment Manager: BNP Paribas Asset Management India Private Limited (AMC) Corporate Identity Number (CIN): U65991MH2003PTC142972

Registered Office: BNP Paribas House, 1 North Avenue, Maker Maxity, Bandra Kurla Complex, Bandra - East, Mumbai - 400 051. Website: www.bnpparibasmf.in • Toll Free: 1800 102 2595

NOTICE CUM ADDENDUM NO. 36/2020

Notice cum Addendum to the Statement Of Additional Information (SAI), Scheme Information Document (SID) and Key Information Memorandum (KIM) for the Schemes of BNP Paribas Mutual Fund ('the Fund'): Change in address of Official Points of Acceptance of Transactions (OPAT):

Investors are requested to note the change in address of the following Official Points of Acceptance of Transactions (OPAT) of KFin Technologies Private Limited, Registrar & Transfer Agents w.e.f. September 09, 2020:

l	Mysore	L-350, Silver Tower, Ashoka Road, Opp. Clock Tower, Mysore – 570 001 Notice cum addendum forms an integral part of the	No. 2924, 2nd Floor, 1 st Main, 5 th Cros Saraswathi Puram, Mysore - 570 009
ı	Note: This	Notice cum addendum forms an integral part of the	SAI, SID & KIM of the Fund read with the a

issued thereunder. All other terms and conditions mentioned in the SAI, SID & KIM shall remain unchanged. For BNP Paribas Asset Management India Private Limited

(Investment Manager to BNP Paribas Mutual Fund)

Sd/-

Branch

Jyothi Krishnan Head of Compliance, Legal & Secretarial

MUTUAL FUND INVESTMENTS ARE SUBJECT TO MARKET RISKS,

Date: September 07, 2020

New Address

READ ALL SCHEME RELATED DOCUMENTS CAREFULLY.

Advertisement to be published in the newspaper for Conversion of Public Limited Company into a Private Limited Company Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs

In the matter of the Companies Act, 2013, Section 14 of Companies Act 2013 and rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 In the matter of VINEY CORPORATION LIMITED, having its registere

Northern Region

Notice is hereby given to the General Public that the Company is intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting it into a Private Limited Company in terms of the Special Resolution passed by members at the Extra Ordinary General Meeting of the Company held or

31.08.2020 to enable the Company to give effect for such conversion. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the Company may deliver or cause to be delivered or send by Registered Post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the concerned Regional Director, Northern Region, B-2 Wing, 2nd Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi – 110 003, within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company

at its Registered Office at the address mentioned below:-Registered Office: E-872, First Floor, Saraswati Vihar, Pitampura

(Brijesh Aggarwal) Managing Director Date: 05.09.2020 DIN 00511293

Place: DELHI

(Incorporation) Rules 2014] Before the Central Government Regional director, Northern Region, Delhi Companies Act 2013 and clause (a) of

Companies (Incorporation) Rules 2014 AND In the matter of

(CIN:U70109DL2006PTC152194) having its Registered Office at 1439, 1ST FLOOR, FLAT NO. office at E-872, First Floor, Saraswati Vihar, Pitampura, New Delhi-4, GALI ARYA SAMAJ SITA RAM BAZAR DELHI NEW DELHI DL 110006

company proposes to make the application to the Central Government under section 13 of the Companies Act 2013, seeking confirmation of alteration of Memorandum of Companies of the company in term of special resolution passed at Extra ordinary General Meeting held on TUESDAY, 01ST DAY OF SEPTEMBER 2020 to enable the company to change its Registered Office from "State of Delhi" to "State of Uttar Pradesh". any person whose interest is likely to be affected by

Pursuant to Rule 30 of Companies

FORM NO. INC-26

In the matter of sub-section 4 of section 13 of the sub-rule (5)of Rule 30 of the

KANAV INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED

Notice is hereby given to General Public that the

the proposed change, may deliver either on MCA portal (www.mca.gov.in) by filling investor complaint form or cause to be deliver or send by registered post of his/her objections supported by an affidavit stating the nature of his/her interest and BHAWAN, CGO COMPLEX, NEW DELHI 110003. within 14 Days of date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office. ADDRESS OF REGISTERED OFFICE:1439, 1ST FLOOR, FLAT NO.-4, GALI ARYA SAMAJ SITA RAM BAZAR DELHI NEW DELHI DL 110006

KANAV INFRASTRUCTURE PRIVATE LIMITED ANITA GUPTA (DIRECTOR)

For and on behalf of

TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED

Registered Address: 11th Floor, Tower A, Peninsulaa Business Park, Ganpatrao Kadam Marg, Lower Parel, Mumbai 400013 BRANCH ADDRESS: B-36, 1st and 2nd Floor, Laipat Nagar- Part-2, New Delhi- 110024.

ecured asset is to be made to recover the secured debt and whereas there was a due of a sum outstanding dues

(Under Rule 9(1) of the Security Interest (Enforcement) Rules 2002) E-AUCTION SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE ASSETS UNDER THE SECURITISATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND

For and on behalf o Viney Corporation Limited

ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT. 2002 READ WITH PROVISO TO RULE 8(5) OF THE SECURITY INTEREST (ENFORCEMENT) RULES. 2002 Notice is hereby given to the public in general and in particular to the below Borrower/Co-Borrower that the below described immovable property mortgaged to Tata Capital Housing Finance Ltd. (Secured Creditor), the Physical Possession of which has been taken by the Authorised Officer of Tata Capital Housing Finance Ltd. (Secured Creditor), will be sold on 26-Sept-2020 "AS IS WHERE IS" & "AS IS WHAT IS" and "WHATEVER THERE IS" for recovery of total sum outstanding dues from the below mentioned Borrower and Co-Reserve Price and the Earnest Money Deposit is mentioned below.

borrower and Co-Borrower. Notice is hereby given that, in the absence of any postponement/discontinuance of the sale the said property shall be sold by E- Auction 2 P.M. on the said 26-Sept-2020 at at B-36, 1st & 2nd Floor, Lajpat Nagar - Part 2 Above HDFC Bank New Delhi - 110024. The sealed E-Auction for the purchase of for the purchase of the property along with EMD Demand Draft shall be received by the Authorized Officer of the TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD till 5 P.M. on 25-Sept-2020. The sale of the property will be in "as is where condition is" and the liabilities and claims attaching to the said property, so far as they have been ascertained, are specified in the Schedule.

S. No.	Loan Account No. Branch	Name of Obligor(s)/Legal Heir(s)/Legal Representative(s)	Amount as per Demand Notice	Type of Possession	Reserve Price	Earnest Money
1.	9468866 B.O.: Delhi	Mr. Himanshu Srivastava (Borrower) & Mr. Deepanshu Srivastava (Co-Borrower)	Rs. 9,55,325/- as on 10-05-2018	Physical	Rs. 9,23,490/-	Rs. 92,349/-
		ured Assets: Item No. 1. All piece and parcel of narth Vihar, Ghaziabad, UP-201014 area adme	Residential Flat/Unit			

the Sale Deed (more fully described in Schedule Ahereto). 2. 9985726 &10305444 | Mr. Muket Lal Garg as (Borrower) & Rs. 81.36.484/-66,60,225/- 66,66,022/-

(part), Bakdar Rakba-4 Marle i.e. ek Kitta Barkba (Admeasuring Area)126.5 Sq. Yds. Waka Mauja Ajrouda, Tehsil & Distt .									
Faridabad, Haryana. (as per the sale deed No. 13241, Dated 30/03/2017)(more fully described in Schedule A hereto).									
9473615 B.O. Delhi	Mr. Yogender Kumar (Borrower) & Mrs. Sapna (Co-Borrower)				Rs. 3,96,000/-				
Description of Secured Assets: Item No. 1. Detailed address of the property financed is Flat No. H-2/1601, (2BHK), Hindon Apartment Sector-7 Sigharth Vibar Ghaziabad, Uttar Pradesh-201010, (more fully described in Schedule Abereto)									
	akdar Rakba-4 ad, Haryana. (a 9473615 B.O. Delhi	akdar Rakba-4 Marle i.e. ek Kitta Barkba (Admeasuring A ad, Haryana. (as per the sale deed No. 13241, Dated 30/03/20 9473615 Mr. Yogender Kumar (Borrower) & B.O. Delhi Mrs. Sapna (Co-Borrower)	Akdar Rakba-4 Marle i.e. ek Kitta Barkba (Admeasuring Area) 126.5 Sq. Yds. ad, Haryana. (as per the sale deed No. 13241, Dated 30/03/2017) (more fully desc 9473615 Mr. Yogender Kumar (Borrower) & Rs. 26,74,633/-B.O. Delhi Mrs. Sapna (Co-Borrower) as on 12-05-2017	Akdar Rakba-4 Marle i.e. ek Kitta Barkba (Admeasuring Area)126.5 Sq. Yds. Waka Mauja ad, Haryana. (as per the sale deed No. 13241, Dated 30/03/2017)(more fully described in School 9473615 Mr. Yogender Kumar (Borrower) & Rs. 26,74,633/- as on 12-05-2017 Physical B.O. Delhi	Akdar Rakba-4 Marle i.e. ek Kitta Barkba (Admeasuring Area)126.5 Sq. Yds. Waka Mauja Ajrouda, Tehad, Haryana. (as per the sale deed No. 13241, Dated 30/03/2017)(more fully described in Schedule A hereto 9473615 Mr. Yogender Kumar (Borrower) & Rs. 26,74,633/- B.O. Delhi Mrs. Sapna (Co-Borrower) as on 12-05-2017 Physical Rs 39,60,000/-				

Mr. Krishnao Das (Borrower) & Rs. 29,17,219/-30.96,000/- 3,09,600/-Mrs. Prabha Mandal (Co-Borrower) as on 30-09-2019 Description of Secured Assets: Item No. 1. All That Residential Flat / Apartment Bearing Unit No. B-1608, Situated at 16th Floor of Project/ building known as Oasis Venetia Heights, HRA 12-A, Site-C, Surajpur Housing Complex, **Greater Noida, U.P.-202001. Area** Admeasuring 1290.00 Sq. ft. With common amenities written in the Allotment Letter/ Agreement to Sale.

Rs. 29,55,213/- Physical Mrs. Renuka Sharma as (Borrower) & Mr. Ajay Sharma as (Co-Borrower) as on 24-10-2019 Description of Secured Assets: Item No. 1. All That Residential Apartment/ Flat unit bearing Flat No. A-1603, Situated at 16th floor of Building/Tower Known as Oasis Venetia Heights, Tower-A, HRA-12A, Site-C, Surajpur Housing Complex, Greater Noida, U.P.-

201301. Area Admeasuring 1150 Sq. Ft. With common amenities written in the Agreement to Sale/ Allotment Letter. Legal Heirs Of Late Shri. Mohan Lal Rs.10,37,203/-(Borrower) & Mr. Manish Kumar Jhinjhot | as on 27-02-2017 11,50,000/- 1,15,000/-

Description of Secured Assets: Item No. 1. Detailed address of the property financed is Flat No. 11, LIG, 2nd Floor, Sector-34, Pocket-1, Block B-21 Road, Rohini, Delhi-110085 Mr. Dattatraya Shirke (Borrower) & Rs. 31,48,315/-Mr. Santosh Kumar Singh (Co-Borrower) as on 22-01-2018 34,66,800/- 3,46,680/

rights), having super area 856 Sq.ft. i.e. 79.52 Sq. Mtr., consisting of as per annexed map in "RATTAN JYOTI", built on Group Housing Plot no. 20, residential colony, Sector-4, Vaishali, Ghaziabad Tehsil & District Ghaziabad (U.P.) 8. | 10167785 & 10177169 Mr. Dayanidhi Acharya (Borrower) | Rs. 31,80,384/- | Physical

Description of Secured Assets: All That Residential Apartment/Flat unit bearing Flat No. A-903. Situated at 9th Floor of Building Project Known as Oasis Venetia Heights, HRA 12-A, Site-C, Surajpur Housing Complex, Greater Noida, U.P.-201301. Area 9263868 & 9268765 Mr. Deepak Jassal (Borrower) &

Mrs. Sunita Jassal (Co-Borrower)

Description of Secured Assets: Item No. 1. All That Flat No. 6, on Ground Floor, at Executive Block, with Roof Rights Covered area of 945 Sq. Ft. i.e. 87.79 Sq Mtr, Alaknanda Apartment, T.H.A Awas Colony, Rampuri, Village-Chikambarpur, Pargana-Loni, Tehsil & Dist-Ghaziabad, Sector-7, Ghaziabad, Uttar Pradesh. 10080064,10074196 Mr. Ajit Kumar Singh (Borrower) & Rs. 32,04,156/-

Description of Secured Assets: All That Residential Apartment/Flat unit bearing Flat No. A-1701, Situated at 17th Floor of Building/ Project Known as Oasis Venetia Heights, HRA 12-A, Site-C, Surajpur Housing Complex, Greater Noida, U.P.-201301. Area Admeasuring 1150 Sq. Ft. with common amenities written in the Allotment Letter/ Agreement to Sale. The description of the Secured asset/ property that will be put up for sale is as per above Schedule. The E auction will be stopped if

given to his satisfaction that the amount of such secured debt, interest and costs has been paid before the date of the auction. No officer or other person, having any duty to perform in connection with this sale shall, however, directly or indirectly bid for, acquire or attempt to acquire any interest in the property sold. The sale shall be subject to the conditions prescribed in the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 and to the following further

The E-auction will take place through portal https://DisposalHub.comon 26-Sept-2020 (Auction Date) between 2.00 PM to 3.00 PM with limited extension of 10 minutes each.

1. The particulars specified in the Schedule herein below have been stated to the best of the information of the undersigned, but the undersigned shall not be answerable for any error, misstatement or omission in this proclamation. In the event of any dispute arising as to the amount bid, or as to the bidder, the lot shall at once again be put up to auction. 2. The property shall not be sold below the

Reserve Price. 3. Bid Increment Amount will be: Rs.10,000/-. 4. All the Bids submitted for the purchase of the property shall be accompanied by Earnest Money as mentioned above by way of a Demand Draft favoring the "TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD." payable at DELHI. The Demand Drafts will be returned to the unsuccessful bidders. 5. The highest bidder shall be declared to be the purchaser of any lot provided always that he is legally qualified to bid and provided further that the amount bid by him is not less than the reserve price. It shall be in the discretion of the 'Authorized Officer' to decline acceptance of the highest bid when the price offered appears so clearly inadequate as to make it inadvisable to do so. 6. For reasons recorded, it shall be in the discretion of the 'Authorized Officer' to adjourn/ discontinue the sale. 7. Inspection of the property may be done on 17-Sept-2020 Marketing and e-Auction Service Provider, M/s NexXen Solutions Private Limited, Address: #203, 2nd Floor, Shree Shyam Palace, Sector: 4&5 Crossing, Railway Road, Gurugram 122 006 through its Mobile No. +91 97100 29933, +91 98100 29926, Tel. No. +91 124 4 233 933, E-mail ID:CSD@disposalhub.com or Arijit Bhatt, Email id Arijit.bhatt@tatacapital.com Authorized Officer Mobile No 9029073280. Please send your query on WhatsApp Number 9029073280. 13. Please refer to the below link provided in secured creditor's website www. https://bit.ly/331jN8L for the above details. DATE: 08-09-2020,

LEADING LEASING FINANCE AND INVESTMENT CO. LIMITED

Regd. Office: 611, Sixth Floor, Pragati Tower 26 Rajendra Place Opp. Metro Station Delhi- 1100083 E-mail: leadingleashing@gmail.com, Website: www.lffltd.com CIN:L65910DL1983PLC016712, Phone: 011 - 25885942

Notice is hereby given that 36th Annual General Meeting of members of company will be held on Tuesday, 29th September 2020 at 10:00 A.M. through video conferencing (VS)/other audio

In accordance with Circular No.14/2020 dated April 08, 2020, Circular No.17/2020 dated April 13 2020 read with Circular No. 20/2020 dated May 05, 2020 ('MCA') and Circular No. SEBI/HO/CFD/ CMD1/CIR/P/2020/79 issued by SEBI ("circulars"), and owing difficulties involved in dispatching physical copies, the Notice of the AGM and Annual Report 2019-20 has been sent to member of the company whose email registered with Company / RTA on September 07, 2020. Members may note that the Company will not send physical/ hard copies of the Annual Report 2019-

Since the AGM is being held through VC/ OAVM pursuant to the Circulars, Physical attendances of members has been dispensed with. Accordingly, the facility for the appointment of proxies by the members will not be available for the AGM. Members holding shares in physical mode who have not registered/ updated their email addresses

with the Company, are requested to register/ update the same with the company's Registrar and Share Transfer Agent PurvaSharegistry (I) Pvt. Ltd. (herein referred as 'RTA') at Please note that the aforesaid documents are also available on the Company's website at

www.lifiltd.comand on the website of the Stock Exchange i.e, Bombay Stock Exchange of India at https://www.bseindia.com/andThe Metropolitan Stock Exchange of India at Limited at www.msei.inand at website of NSDL also evoting@nsdl.co.in.

Notice is further given that pursuant to the provisions of section 108 of the Companies Act, 2013 read with rule 20 of the companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulations, 2015, the Company is providing its members facility to exercise their right to vote at 36th AGM by electronic means and the business as set out in the Notice may be transacted through remote e-voting or through e-voting system at the AGM by NSDL. The members may note

Members holding shares as on cut- of date i.e. 22th September, 2020 may cast their vote electronically on the ordinary business as set out in the Notice of the AGM through electronic voting system of National Securities Depository Limited (NSDL). The e-voting period shall commence on Saturday, 26th September, 2020 (09:00 A.M.) till Monday, 28th September 2020 (5:00 P.M.) Members of the company holdings shares either in physical or in Dematerialized form, as on

the Cut -off date, may cast their vote either electronically during the remote e-voting period or through e-voting system at the AGM. Members who have voted through Remote e-Voting will be eligible to attend the AGM. However, they will not be eligible to vote at the AGM. The Company has appointed Mr. Vivek Kumar, Practicing Company Secretary of V Kumar & Associates as the Scrutinizer to Scrutinize the e-voting process in a fair and transparent manner. The Register of Members and the Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, 23th September, 2020 to Monday, 28th September, 2020 (both days inclusive) for the purpose of Annual General Meeting.

In case of any queries, you may refer to the Frequently Asked Questions (FAQs) for members and e-voting user manual for members available at the Downloads sections of https:// www.evoting.nsdl.com or contact NSDL at the following toll free no.: 1800-222-990. For any further grievance related to the Remote E-voting, members may contact NSDL at the following contact information:

Phone No.+91 22 24994600/24994738

Place : Delhi

By order of the Board For Leading Leasing Finance And Investment Co. Limited

Date: 07th September, 2020 Name: Ami Jinen Shah DIN: 06792048 Designation: Whole Time Director Address: 8 - Girirai 2nd Floor Kotachi

WadiV.P.RoadGirgaon Mumbai 400004 MH IN MEGA NIRMAN AND INDUSTRIES LIMITED

CIN: L70101DL1983PLC015425 Regd. Office: A-6/343B, 1stFloor, Paschim Vihar, New Delhi-110063

Website: www.mnil.in Email-ID: secretarial.mnil@gmail.com; Contact No. 011-49879687 NOTICE OF 37th ANNUAL GENERAL MEETING, BOOK CLOSURE & REMOTE E-VOTING INFORMATION NOTICE is hereby given that the 37" Annual General Meeting (AGM) of Mega Nirman & ndustries Limited (the Company) will be held through video conferencing ("VC")/other

audio visual means ("OAVM") on Wednesday, the 30" September, 2020 at 11:00 AM to ransact the ordinary business and special business as set out in the Notice of the AGM. The Notice of AGM, Annual Report for the financial year ended March 31, 2020 and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose email ID are egistered with the Company/RTA/Depository Participants. The date of completion of email of the notices to the Shareholders is 07° September, 2020 In case you have not registered with the Company/Depository, please follow below

instructions to register your email ID for obtaining annual report for FY 2019-20 and login Physical Holding: Send a request to Registrar and Share Transfer Agents of the

Company, Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd at beetalrta@gmail.com providing folio number, name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back). PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar card) for registering email address.

Demat Holding: Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email address as per the process advised DP hese documents are also available on Company's websitewww.mnil.in for download by

the members. Notice is hereby given in compliance with the provisions of Section 108 of the

Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules

2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Company has offered e-voting facility for transacting all the business by National Security Depository Limited (NSDL) through their portal www-evotingindia.com to enable the members to cast their votes electronically. The remote e-voting period commences on Sunday, September 27, 2020 (09:00 am) and ends on Tuesday, September 29, 2020 (05:00 pm). No E-Voting shall be allowed beyond the said date and time. During this period members of the Company, holdingshares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 23rd, 2020. may cast their vote by remote E-voting. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut of date i.e. September 23rd, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or RTA. Beetal Financial & Computer Services Pvt Ltd. at beetalrta@gmail.com, However, if the members are already registered with NSDL 'or emote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote. The remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it subsequently. The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. CS Shalu Singhal, Practicing Company Secretary (Membership No. 32682& CP No. 12329), has been appointed as Scrutinizer tor the e-voting process. The detailed procedure tor remote evoting is contained in the letter sent with the Notice of the AGM. Any query/grievance relating to E-voting may be addressed to Ms. Kanika Mehra, Company Secretary and Compliance Officer, Mega Nirman & Industries Limited, A-6/343B, First Floor, Paschim

Vihar, New Dethi-110063. Email: secretarial.mnil@gmail.com NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday September 23, 2020 to Wednesday, September 30, 2020 (both days inclusive) for the purpose

of taking record of the shareholders at the Annual General Meeting. For Mega Nirman & Industries Limited

Date: 07.09.2020 Place: New Delhi

Kanika Mehra Company Secretary

UJALA COMMERCIALS LIMITED CIN: L93000DL1985PLC021397

Regd. Office: A-6/343B, 1" Floor, Janta Flats, Paschim Vihar, New Delhi-110063 E-mail: csujala.commercial@gmail.com; Website: www.ujalacom.in Phone: 011-49879687 NOTICEOF34" ANNUAL GENERAL MEETING

BOOK CLOSURE & REMOTE E-VOTING INFORMATION

NOTICE is hereby given that the 34" Annual General Meeting (AGM) of Ujala Commercials Limited (the Company) will be held through video conferencing ("VC")/other audio visual means ("OAVM") on Wednesday, the September 30, 2020 at 12:00 P.M to transact the ordinary business and special business as set out in the Notice of the AGM. The Notice of AGM, Annual Report for the financial year ended March 31, 2020 and remote e-voting details have been sent in electronic mode to all the members whose email ID are registered with the Company/RTA/Depository Participants. The date of completion of email of the notices to the Shareholders is 07° September, 2020.

In case you have not registered with the Company/Depository, please follow below nstructions to register your email ID for obtaining annual report for FY 2019-20 and login Physical Holding: Send a request to Registrar and Share Transfer Agents of the

company, Beetal Financial & Computer Services Pvt. Ltd at beetalrta@gmail.com providing folio number, name of the shareholder, scanned copy of the share certificate (Front and Back). PAN (self attested scanned copy of PAN card), AADHAR (self attested scanned copy of Aadhar card) for registering email address. Demat Holding: Please contact your Depositary Participant (DP) and register your email

These documents are also available on Company's website www.ujalacom.in for download

Requirements) Regulations, 2015 that the Company has offered e-voting facility for transacting all the business by National Security Depository Limited (NSDL) through their portal www-evotingindia.com to enable the members to cast their votes electronically. The remote e-voting period commences on Sunday, September 27, 2020 (09:00 am) and ends on Tuesday, September 29, 2020 (05:00 pm). No E-Voting shall be allowed beyond the said date and time. During this period members of the Company, holding shares either in physical form or in dematerialized form, as on the cut-off date of September 23, 2020, may cast their vote by remote E-voting. Any person, who acquires shares and becomes member of the Company after dispatch of the notice and holding shares as of the cut of date i.e. September 23, 2020, may obtain the login ID and password by sending a request at evoting@nsdl.co.in or to RTA Beetal Financial & Computer Services Pvt Ltd. at beetalrta@gmail.com, However, if the members are already registered with NSDL 'or emote e-voting then they can use their existing user ID and password for casting their vote. "he remote e-voting module shall be disabled by NSDL for voting thereafter. Once the vote on a resolution is cast by the member, the member shall not be allowed to change it

Company Secretary (Membership No. 32682& CP No. 12329), has been appointed as Scrutinizer for the e-voting process. The detailed procedure for remote e-voting is contained in the letter sent with the Notice of the AGM. Any query/grievance relating to Evoting may be addressed to Ms. Poorti Goel, Company Secretary and Compliance Officer, Ujala Commercials Limited, A-6/343B, First Floor, Paschim Vihar, New Dethi-110063. Email: csujala.commercial@gmail.com NOTICE is also hereby given pursuant to Section 91 of the Companies Act, 2013, Rule 10 of the Companies (Management & Administration) Rules, 2014 and Regulation 42 of SEBI

purpose of taking record of the shareholders at the Annual General Meeting. For Ujala Commercials Limited

Company Secretary

-

(Company Secretary and Compliance Officer)

B.O.: DELHI Mrs. Komal Garg (Co-Borrower). as on 03-09-2018

as on 06-11-2018

Description of Secured Assets: All piece and parcel of Part of Item No 1 The Residential Flat No. 607, on 6th Floor, (Without roof

as on 30-09-2019 25.61.625/- 2.56.162/-

24.84.000/- 2.48.400/-Mrs. Geeta Singh (Co-Borrower). as on 30-09-2019

amount due as aforesaid, with interest and costs (including the cost of the sale) are tendered to the 'Authorized Officer' or proof is

between 11 A.M. to 5.00 P.M. 8. The person declared to be the purchaser shall, immediately after such declaration, deposit twenty five per cent of the amount of purchase money to the 'Authorized Officer' and, in default of such deposit, the property shall forthwith be put up again and resold. 9. In case the initial deposit is made as above said, the balance amount of the purchase money payable shall be paid by the purchaser to the 'Authorized Officer' on or before the 15th day from the date of confirmation of the sale o the property, exclusive of such day, or if the 15th day be a Sunday or other holiday, then on the first office day after the 15th day. In default of payment within the period mentioned above, the property shall be resold, after the issue of a fresh proclamation of sale and all amounts deposited till then shall be stand forfeited by the TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD. and the defaulting purchaser shall forfeit all claims to the property or to any part of the sum for which it may be subsequently sold. The property shall be resold a the discretion of the Authorised Officer. 10. In the event of Default of any payment within the period mentioned above, the property shall be put to fresh auction/ Sale By private Treaty, The Deposit Including EMD Shall Stand forfeited by TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD. And the defaulting purchaser shall lose all claims to the Property. 11. Details of any encumbrances, known to the TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LTD., to which the property is liable: Nil. Claims, if any, which have been put forward to the property and any other known particulars bearing on its nature and value: Nil. 12. For any other details or for procedure online training on e-Auction to the prospective bidders may contact the Client Service Delivery (CSD) Department of our Sales 8

Sd/- Mr. ARIJIT BHATT (Mob. No. 9029073280) PLACE: DELHI Authorised Officer For TATA CAPITAL HOUSING FINANCE LIMITED

Place: New Delhi New Delhi

Date: 07.09.2020

address as per the process advised DP by the members. Notice is hereby given in compliance with the provisions of Section 108 of the Companies Act, 2013 read with the Companies (Management and Administration) Rules, 2014 as amended and Regulation 44 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure

27,21,600/- 2,72,160/-

The facility for voting through e-voting shall be made available at the AGM and the members who have cast their vote by remote e-voting prior to the AGM may also attend the AGM but shall not be entitled to cast their vote again. CS Shalu Singhal, Practicing

(Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 that the Register of the Members and Share Transfer Books of the Company will remain closed from Wednesday, the September 23, 2020 to Wednesday, the September 30, 2020 (both days inclusive) for the

Poorti Goel